



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.12.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सदर मालखाना का किया गया औचक निरीक्षण-

आज दिनांक 03.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा सदर मालखाना का औचक निरीक्षण उप जिलाधिकारी सदर श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान मालखाने में माल मुकदमाती मालों को चेक किया गया तथा मालखाना प्रभारी से मालों के निस्तारण व रख-रखाव के बारे में जानकारी की गयी तथा शेष मालों को मां0 न्यायालय द्वारा अनुमति उपरान्त जल्द निस्तारण कराने के सम्बन्ध में मालखाना प्रभारी मुख्य आरक्षी नरेन्द्र सिंह को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा सदर मालखाने की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के रहने सम्बन्धी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिये सम्बन्धित को आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये निर्देशित किया गया

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर श्री जितेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह, प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार, थानाध्यक्ष खन्ना श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.12.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय चरखारी का किया गया आकस्मिक निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश..

आज दिनांक 03.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर० के० गौतम द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय चरखारी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के अभिलेखों अपराध रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर इत्यादि का अवलोकन करते हुये उनके रखरखाव की स्थिति को देखा गया व साफ-सफाई रखने तथा राजकीय कार्य को समय से पूरा करने के लिये संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

कार्यालय में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों से वार्ता कर उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुये जानकारी ली गयी व अधिकारी/कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया तथा संबंधित को उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर क्षेत्राधिकारी चरखारी अजय अग्रवाल तथा कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330